

प्रेस नोट

दिनांक 22.01.2023

थाना रजबपुर पुलिस व आबकारी विभाग टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गैर प्रान्तिय अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त वाहन अटिका कार बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक अभियुक्त को अवैध शराब व तस्करी में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- अवगत कराना है कि कल दिनांक 21.01.2023 को आबकारी टीम व थाना रजबपुर पुलिस द्वारा जोया टोल पर चैकिंग के दौरान यू0पी0 21 सी0यू0 7267 मरुती अटिका से अवैध शराब की तस्करी कर रहे अभियुक्त मुकेश भारद्वाज पुत्र केशो शरण शर्मा निवासी डिलरा रामपुर थाना मुडापाण्डे मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से गाडी मे छिपाकर रखी हुई 101 देशी शराब के पौवे रफ्तार गोल्ड ,दो –दो ली0 की बोटलो मे अपमिश्रित शराब,30 पौवे रॉयल स्टैग विस्की ,25 पौवे मैग डावल विस्की 678 ढक्कन देशी शराब पौवो के (नकली) 26 (नकली) व 3021 नकली बार कोड बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रजबपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

पूछताछ पर अभियुक्त मुकेश भारद्वाज द्वारा अवैध रूप से धन अर्जन करने के लिए तस्करी कर उंचे दामों में बेच देना बताया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मुकेश भारद्वाज पुत्र केशो शरण शर्मा निवासी डिलरा रामपुर थाना मुडापाण्डे मुरादाबाद ।

बरामदगी:-

1. तस्करी में प्रयुक्त वाहन यू0पी0 21 सी0यू0 7267 मरुती अर्टिका ।
2. 101 देशी शराब के पौवे रफ्तार गोल्ड ,दो –दो ली0 की बोतलो मे अपमिश्रित शराब,30 पौवे रॉयल स्टैग विस्की ,25 पौवे मैग डावल विस्की 678 ढक्कन देशी शराब पौवो के (नकली) 26 (नकली) व 3021 नकली बार कोड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. आबकारी टीम धनौरा व हसनपुर क्षेत्र ।
2. थाना रजबपुर पुलिस टीम ।

PRO CELL AMROHA